



भिन्नों का घटाव (उचित अंश) (अनुचित अंश)

नाम: _____

दिनांक: _____ स्कोर: _____

$$\frac{7}{4} - \frac{5}{9} =$$

$$\frac{5}{2} - \frac{5}{3} =$$

$$\frac{7}{3} - \frac{1}{6} =$$

$$\frac{7}{6} - \frac{3}{5} =$$

$$\frac{3}{2} - \frac{4}{9} =$$

$$\frac{6}{4} - \frac{2}{8} =$$

$$\frac{1}{4} - \frac{1}{7} =$$

$$\frac{6}{7} - \frac{2}{4} =$$

$$\frac{6}{7} - \frac{6}{9} =$$

$$\frac{6}{5} - \frac{3}{4} =$$



भिन्नों का घटाव (उचित अंश) (अनुचित अंश)

नाम: _____

दिनांक: _____ स्कोर: _____

$$\frac{7}{4} - \frac{5}{9} = \frac{43}{36} = 1\frac{7}{36}$$

$$\frac{5}{2} - \frac{5}{3} = \frac{5}{6}$$

$$\frac{7}{3} - \frac{1}{6} = \frac{13}{6} = 2\frac{1}{6}$$

$$\frac{7}{6} - \frac{3}{5} = \frac{17}{30}$$

$$\frac{3}{2} - \frac{4}{9} = \frac{19}{18} = 1\frac{1}{18}$$

$$\frac{6}{4} - \frac{2}{8} = \frac{5}{4} = 1\frac{1}{4}$$

$$\frac{1}{4} - \frac{1}{7} = \frac{3}{28}$$

$$\frac{6}{7} - \frac{2}{4} = \frac{5}{14}$$

$$\frac{6}{7} - \frac{6}{9} = \frac{4}{21}$$

$$\frac{6}{5} - \frac{3}{4} = \frac{9}{20}$$